

भारत सरकार  
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 5536  
उत्तर देने की तारीख 02 अप्रैल, 2018  
सोमवार, 12 चैत्र, 1940 (शक)

ई-अपशिष्ट के निपटान में कौशल

5536. डॉ. उदित राज:

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने ई-अपशिष्ट के कुशल संग्रहण और निपटान हेतु कबाड़ी वालों को कौशल प्रदान करने की योजना तैयार की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितने कबाड़ी वालों को प्रशिक्षित किया गया है; और
- (ग) सरकार द्वारा पूरे देश में इस योजना का समुचित कार्यान्वयन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हो?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री  
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (ग) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से कौशल विकास हेतु कार्य-नीति और कार्यान्वयन कार्यक्रम विकसित करने के लिए सरकार, उद्योग तथा विभिन्न प्रमुख हितधारकों के मध्य एक सेतु के रूप में कुशल भारत मिशन के भाग के तौर पर हरित जॉब के लिए कौशल परिषद (एससीजीजे) की स्थापना की है, जो ई-कचरा सहित हरित व्यवसाय उद्योग की जन-शक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।

एससीजीजे ने हाल ही में कचरा प्रबंधन के विकास के लिए मानकीकृत अर्हता पैक/जॉब रोल विकसित किया है, जिसमें पुनः उपयोग में लाए जाने वाले कचरे का संग्रह और पृथकीकरण का कार्य करने वालों (कबाड़ी वाले) को शामिल हैं, जो क्यूपी के अनुसार पुनः उपयोग में लाए जाने वाले कचरे का सही प्रकार से संग्रह और उसे पृथक करने के लिए जिम्मेदार होंगे। किंतु, इस जॉब रोल का कौशल विकास प्रशिक्षण अभी तक आरंभ नहीं हुआ है।

\*\*\*\*\*